## LARK TRADING AND FINANCE LIMITED

CIN: L34102UP1987PLC009222

Regd. off: C-273 Sector-63, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301 Telephone-011-22159466, Email:larktradingfinance@gmail.com website: www.larktrading.in

Date: 27.10.2023

Head-Listing & Compliance, Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.

205(A), 2nd floor, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West), Mumbai – 400070.

**Security Code: LARK** 

The Manager
The Calcutta Stock Exchange
Ltd.
7, Lyons Range, Murgighata,

BBD Bagh, Kolkata
West Bengal – 700001

Scrip Code:022126

Sub: <u>Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)</u>
<u>Regulations, 2015-Newspaper Publication</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 please find attached herewith Newspaper Advertisement w.r.t. Unaudited Standalone Financial Results for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September 2023 approved at the Board Meeting of the Company which was held on Thursday, 26<sup>th</sup> Day of October, 2023 (commenced at 12:00 P.M. and concluded at 01:10 P.M.), published in leading English Newspaper (Business Standard) and in Regional Language (Hindi) Newspaper (Business Standard Hindi Edition).

Kindly take the above information on your records.

For Lark Trading and Finance Limited

Sumit Tayal Whole time Director DIN: 06598044

Place: Noida

# Q3 uptick key to reversal of Jubilant's fortunes

Brokerages downgraded ratings, accompanied by 18% revision in earnings

RAM PRASAD SAHU Mumbai, 26 Octobe

eak like-for-like (LFL) growth in the July-September quarter of 2023-24 (Q2FY24), nearterm demand worries and higher costs led to cuts in profit estimates for FY24 and FY25 of Jubilant FoodWorks.

Some brokerages have downgraded its ratings, and this was accompanied by earnings revision by as much as 18 per cent.

Given the multiple concerns, the stock of the pizza market leader in the organised quick service restaurant segment slipped 4.3 per cent to ₹505.9 in trade on Thursday.

The company reported a 4.5 per cent growth in revenues over the year ago quarter and the growth was led by opening of new stores even as like-forlike growth remained weak falling 1.3 per cent.

This coupled with the lack of operating leverage led to a 10 per cent drop in operating profit and a 35 per cent dip in

. While the gross margins were higher by 20 basis points year-on-year (Y-o-Y), the operating profit margins declined by 350 basis points.


The company is eyeing 15 per cent revenue growth in the long term led by 5-6 per cent improvement in LFL for Dominos in the long term and 10-12 per cent growth coming from the addition of

Commenting on the results, ICICI Securities believes the recovery in the dine-in business is uninspiring, while operating margins remained under stress due to negative operating leverage.

Analysts led by Manoj Menon of the brokerage, have, however, maintained a positive stance with a target price of ₹620 given that all the levers for growth (20minute delivery, store-re-imagination, loyalty programme, menu regionalisation) are in the advanced stages of completion.

Antique Research, which has cut its estimates by 9-18 per cent for FY24 and FY25, expects a gradual recovery in the performance, which has been impacted on account of the general slowdown in discretionary spending, higher competitive intensity, and increased consumer





**Jubilant FoodWorks is eyeing 15%** revenue growth in the long term, led by 5-6% improvement in LFL for Dominos in the long term, and 10-12% growth coming from the addition of new stores

preference for the dine-in format.

The brokerage believes margins will remain under pressure due to elevated commodity prices, negative operating leverage, and step-up in promotional

It has downgraded the stock to sell wi-

th a target price of ₹435 (previously ₹477).

While Prabhudas Lilladher Research has cut its earnings estimates, it believes the worst is over given expectations of higher demand during festival season and the Cricket World Cup and incremental improvement from lower margins in base quarters.

Analysts led by Amnish Aggarwal of the brokerage say that the December quarter trends will hold key to gauge the extent of rebound in profits.

They have a 'hold' rating with a target price of ₹505 a share.

# Invest in US Treasury debt fund for currency hedge

#### There could be losses if interest rates rise or rupee appreciates

#### SARBAJEET K SEN

The yield on the 10-year United States (US) government bond touched 5 per cent recently, a 16-year high. Meanwhile, Aditya Birla Sun Life Asset Management Company (AMC) has announced two new fund offers (NFOs) of schemes that will invest in units of Exchange Traded Funds (ETFs) that invest in US Treasuries. In March 2023, Bandhan Mutual Fund (MF) had launched its Bandhan US Treasury Bond 0-1 Year Fund-of-Fund.

#### What is on offer?

Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3-Year Bond ETFs Fund of Funds and Aditya Birla Sun Life US Treasury 3-10 Year Bond ETFs Fund of Funds invest in units of ETFs that invest in US Treasuries that mature in one to three vears and in US Treasuries that mature in three to 10 years, respectively. Bandhan MF's scheme invests in units of an ETF that invests in US treasuries maturing in less than one year. These are passively managed products with low expense ratios. "The FoFs are a simple and cost-effective way for Indian

investors to create assets denominated in US dollars and invest in US Treasuries which are one of the safest assets globally," says Kaustubh Gupta, co-head fixed income. Aditya Birla Sun Life AMC.

#### **Exposure to dollar assets** These funds provide exposure

**MONEY** to the US dollar. An investor who has a dollar-denominated goal such as a child's education, for Indian investors, given the rupee's abroad or a foreign vacation may look at these funds to manage the currency risk. An investment in government bonds also takes care of credit risk.

"There are three possible advantages of investing in US Treasuries — low credit risk, currency gains if the rupee depreciates against the US dollar, and possible mark-to-market gains if interest rates head down or healthy

#### INTERNATIONAL **DEBT FUNDS:** WHAT'S ON OFFER

#### Pros

Investors gain exposure to US dollar assets; suitable for dollar-denominated goals like foreign education and vacations abroad

US Treasuries have low credit risk

Currency gain if the rupee depreciates against the US dollar

No utilisation of LRS limit, hence tax collected at source (TCS) is not levied

Potential for capital gains if interest rates are cut in 2024-25

accruals in case yields remain where they are currently," says Vishal Dhawan, founder and chief executive officer

(CEO), Plan Ahead Wealth Advisors. These schemes also help in avoiding the tax impact on forex transactions.

"Investment in US treasuries through an FoF will not lead to utilising the Liberalised Remittance Scheme (LRS) limit of \$250,000. So, it will not attract any Tax Collected at Source (TCS)," says Sirshendu Basu, head-products. Bandhan AMC. Basu adds that US dollar assets can be matched with any future

> liability or expense in US dollars, providing a hedge against USD-INR currency movement.

#### Safe-haven asset US Treasuries are the classic

YOUR

counter-cyclical and safehaven asset. "They have historically appreciated in times of risk-off. Hence, they are an excellent investment avenue

historical tendency to weaken in such scenarios," says Gupta. An investment in these FoFs could lead to capital gains in the financial year 2024-25. "With the US Fed reaching the peak of its rate hike cycle and rate cuts expected by the second or third quarter of the next financial vear, an investor could earn mark-to-market gains in addition to yields if and when interest rates decline," says Dhawan.

## Cons

Delay in capital gains if US Fed's hawkish stance continues

Potential mark-to-market loss if interest rate increases

Return could be impacted if the rupee appreciates

against the dollar

#### Interest and currency risk

Investors need to be cognisant of the risks in these funds. "If the rupee appreciates, it would affect fund return. An interest rate hike would also impact returns. But since these funds have a low duration. the impact would be low," says Basu.

The three funds in this category lack a track record currently.

#### Invest for medium term

Investors should be prepared to hold these investments for the medium term to see meaningful returns.

"The ideal holding period should be one to three years. The investment in an international bond fund should be a complementary solution to your India fixed-income portfolio, Allocate 5-15 per cent of your fixed-income allocation to this strategy, depending on the breakup of the outlay on your domestic and international financial goals," says Dhawan.

Investors should, however, have moderate return expectations from these funds.

For their longer-term dollardenominated goals, the bulk of their international investment should be in overseas equities through index funds or actively managed equity schemes with a sound track record, which can help compound wealth. Those who do not have dollar-

denominated financial goals may stick to domestic fixed-income instruments.

PUBLIC NOTICE
It is Notified For The Information Of
GENERAL PUBLIC, That My Clients JASWANT SINGH S/O LATE RAM SINGH R/O J-5/21 GROUND FLOOR RAJOUR GARDEN, WEST DELHI -110027, Has Severed All Their Relations And Connections With His Son DALJEE SINGH, His Wife, RAMANDEEP KAUR 8 Their Childrens SANJAM KAUR And REHA' KAUR R/O J-5/108 GROUND FLOOF RAJOURI GARDEN, NEW DELHI-11002 And Their Childrens, Because They Are Ou Of Control Of My Clients And Has Debarred Them From His All Movable And Immovable Properties. "Anybody Deals With Them At His/Her/Their Own Risk, Cost And Expenses. My Clients Shall Neither be Liable And Responsible For Their Acts, Deeds, And Things Under Any Circumstances

🔯 NSE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.

NOTICE

Trading Member of the National Stock

nge of India Ltd. (Exchange)

INZ000301651

The constituents of the above-mentioned Trading Member are hereby advised to

lodge immediately complaints, if any, against the above mentioned Trading

Member on or before the last date for filing

such complaints filed beyond this period

will be entertained by the Exchange against the above mentioned Trading Member and it shall be deemed that no such complaints

exist against the above mentioned Trading Member or such complaints, if any, shall

complaints filed against the above-mentioned

trading member will be dealt with in

accordance with the Rules. Bve-laws and

Regulations of the Exchange/ NCL. The

complaints can be filed online at https://www.nseindia.com/invest/file-a-co

mplaint-online. Alternatively, the complaint forms can be downloaded from

https://www.nseindia.com/invest/downloa

d-complaint-form-for-offline-registration of may be obtained from the Exchange office at Mumbai and also at the Regional Offices.

Nifty50

Vice President Regulatory

Place: Mumbai October 27th, 2023

requested for the surrender of its trading

membership of the Exchange:

SI. Name of the trading member SEBI registration no.

Research LLF



Address: 32-B, Sector-62, NOIDA-201307

## Ref: BOI/GZB/ADV/23-24/02

Public notice is hereby given for auction sale of uncharged assets which are reduced to waste/scrap kept in the branch premises not below Rs. 67,000/- (Rs. Sixty Seven Thousand only). Date fixed for its sale is 03.11.2023. Time: 11.AM. Sale shall be confirmed in favour of any bidder quoting a price above Rs. 67,000/- else the sale shall be confirmed in favour of the bidder who has already quoted the highest bid of Rs. 67,000/-

Authorized Officer, Bank of India Ghaziabad Branch.

Fraction over the "MMLP CONCOR siding at Paradeep" of Khurda Road Division of East Coast Railway, height gauges have been erected at all the level crossing with clear height maximum heigh 4.78m above road level with a view to prevent loads of excessive height from coming into contact of angerous proximity to live traction wire (contact wire), which shall be at a height of minimum 5.5r above the rail level at level crossings.

rcumstances. The dangers of a load of excessive height are as follows: Danger to the height gauge and consequent obstruction to the road as well as the railway line

Danger of fire and risk of life due to contact with or dangerous proximity to the conductors

SECTION:- Electrification of "MMLP CONCOR siding at PARADEEP" of Khurda Road Division

Date of Energization: 30.10.2023

Finance Ltd HE ANSWER IS HOME

SATIN HOUSING FINANCE LIMITED Corporate Office: Plot no 492, Udhyog Vihar, Phase -3, Gurugram Haryana-122016 Registered Office: 5th Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) RULE 8-(1) Whereas, The undersigned being the authorized officer of the **Satin Housing Finance Limited** unduring the "Security Interest (Action of Financial Assets and Financial Assets).

said notice.

The said Borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken Symbolicpossession of the property described herein below in exercise the powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said act read with rule 8 of the security interest Enforcement Rules, 2002 on this date.

The Borrower/Co-borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and dealings with the property will be subject to the charge of the Satin Housing Finance Limited. For the amount specified therein with further interest, costs and Chagares from respective dates thereon until full payment. The Borrower's attention is invited to the provision of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. Name of the Borrower, Description of the Demand Amount

now, for a customised vour business requirements

**Business Standard** Insight Out

Zonal Office, Ghaziabad Zone

## Dated: 26.10.2023

Notice for Sale of uncharged assets kept in **Ghaziabad branch premises.** 

# भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरल कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) IC New MDBP Building, 2nd Floor, Okhla Indi. Estate (Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-11

INTRODUCTION OF AC 25 KV TRACTION "WARNING TO ROAD USERS"

It is notified for information of the public that in connection with introduction of 25 KV AC Electric

Public are hereby notified to observe the height specified above for the purpose of loading vehicle and to see that the loads carried in road vehicles do not infringe the height gauges under an

Group General Manager (P&S)

Place: Delhi, Date: 26/10/2023

UNE SECURIUATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND Enforcement of Security interest (Act 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with [rule 3] of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices to the Borrower/s as details hereir under, calling upon the respective Borrowersto repay the amount mentioned in the notice with all costs charges and expenses till actual date of payment within 60 days from the date of the receipt of the said paties.

Details of the Borrowers, Co-borrowers and Guarantors, Securities, Outstanding Dues, Demand Notic sent under Section 13(2) and Amount claimed thereunder and Date of Possession is given as under:

No.	Account No.	Immovable Property	Notice Date	Due In Rs.
1.	1. Surender Singh S/o Kuldeep Singh (Borrower) 2. Jyoti Jyoti W/o Ramesh Kumar (Co-Borrower)	House 125, Waka Mauja Nayagaon Sub Tehsil- Nahad, District- Rewari, Haryana- 123303, Bounded As: East-	Symbolic	Rs. 7,11,714/- (Rupees Seve Lakh Eleven thousand seve
	3. Kuldeep Kuldeep S/o Maharam (Co-Borrower) LAN NO. LAREI0820-00001985	Plot of Mr. Jai Kumar, West- Rasta 18 Ft., North- Plot of Mr. Rajender, South- Plot of Mr. Rajesh	Date	hundred fourtee Only) as on 10 August, 2023
2.	1. Yogesh Yogesh S/o Prem Singh (Borrower) 2. Sandhya Sandhya W/o Yogesh (Co-Borrower)	Plot/House UID No. 4462, Property Id No. 61580WAJ0000/ RO 126A Lal Dora Abadi, village Ajaib Tehsil Meham <b>Distt Rohtak</b> ,	18.08.2023 Symbolic Possession Date	Rs. 4,73,135 / (Rupees Four Lakh Seventy three thousand

Prem (Co-Borrower) LAN NO. LARTK0622-00005275	House of Owner/ 74 Ft., West -Street 18 Ft. Wide/74ft., Nort Bijender/30 Ft, South- Street 14 - 124111	h- House of	thirty five Only) as on 10th August, 2023
Vikas Sachan S/o Gyan Prakash Sachan     Z. Kanchan W/o Vikas     Sachan     LAN NO.     LASHD0223-00007173	Abadi Mohalla, Krishnanagar, Patti-Aurangabad, Ward No- 18, Kasba - Khekra Adar, Nagar, Municipal Council, Khekra, Tehsil- Khekra, <b>Distt- Bagpat,</b> <b>UP-250101.</b> Bounded As, East (13 Ft.) Street 15 Ft. Wide, W House of Harendra, North (52 F Harendra, South (52 Ft)- House of	Date  03.11.2023  Vest (13 Ft.)- Ft.)- House of	Rs. 7,78,142/- (Rupees Seven Lakh Seventy eight thousand one hundred forty two Only) as on 10 th August, 2023

Authorised Officer Satin Housing Finance Limited

## NORTHERN RAILWAY INVITATION OF TENDERS THROUGH

Tender Notice NO. 63/2023-2024 Principal Chief Materials Manager, Northern Railway, New Delhi-110001, for and or behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for

S.	Tender No.	Brief Description	Qty.	Closing
N.				Date
01	07231109	UPPER RUBBER WASHER FOR BOGIE BOLSTER	7847 NOS	20.11.23
02	19230583	REPAIR KIT FOR EP RELAY VALVE	418 SET	20.11.23
03	02232510	VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY 1100AH, 110V	145 SET	20.11.23
04	07231454A	SCREW COUPLING ASSEMBLY	1161 NOS	18.12.23
05	07230426	SPEED SENSOR FS01A	914 NOS	12.01.24

NOTE -1. Vendors may visit the IREPS website i.e. www.ireps.gov.in for details

## VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED

A Public Ltd. Company Incorporated under the Companies Act, 1956 Date of Incorporation: 04.02.2005 • CIN: U65922MH2005PLC272501 Registered & Corporate Office: Unit Nos. 203 & 204, 2nd Floor, A Wing. Navbharat Estates, Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai – 400015. Tel. No.: 022-24190911 • Email: cs@vastuhfc.com • Website: https://www.vastuhfc.com

**PUBLIC NOTICE FOR SHIFTING OF BRANCH OFFICE** The Branch office of Vastu Housing Finance Corporation Limited ("Company") at Junagadh shall be shifted to the new premises as

mentioned below from 12th February 2024 (effective date):

Old Address 204-Central Plaza, Second Floor,
Opp. Bahauddin College, College Road, Junagadh – 362001, Gujarat.

New Address Timbavadi, R.S No. 70/Paike- 5. Plot No. 3, Office No. 141 & 143, 1st Floor Central Plaza Aangan Park, Near Madhuram Gate, Opp. Junagadh Bypass. Junagadh, Gujarat – 362001 The old Premises will remain operational till 11th February 2024

From 12th February 2024 onwards, all transactions / customer service requests of the Company should be sent to the new address only. In case of any queries, you may contact us at: customercare@vastuhfc.com

Address: Unit Nos. 203 & 204, 2<sup>nd</sup> Floor, A Wing, Navbharat Estates Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai – 400015 Date: 26.10.2023

Vastu Housing Finance Corporation Limited

## **O**SBI

Stressed Assets Resolution Group, Corporate Centre 21st Floor, Maker Towers "E" Wing, Cuffe Parade, Mumbai - 400005 TRANSFER OF STRESSED LOAN EXPOSURES TO THE ELIGIBLE

#### BUYERS (PERMITTED ARCs/NBFCs/Banks/Fls) THROUGH e-AUCTION State Bank of India invites Expression of Interest (EOI) from Eligible Participants subject to applicable regulations issued by Reserve Bank of

India/regulators for transfer of Stressed Loan Exposure of 1 (one) account with principal outstanding of₹63.99 Crores (Rupees Sixty three crores and ninety nine lakhs only) through e-Auction on "as is where is", "as is what is", 'whatever there is" and "without recourse" basis. All interested eligible participants are requested to submit their

willingness to participate in the e-Auction by way of an "Expression of Interest" and after execution of Non-Disclosure Agreement, if not already executed (as per the timelines mentioned in web-notice) by contacting on e-mail id dgm.sr@sbi.co.in. Please visit Bank's web site https://bank.sbi and click on the link "SBI in the news>Auction Notices>ARC & DRT" for further details (web-notice). Please note that Bank reserves the right not to go ahead with the

corrigendum at https://bank.sbi (click on the link "SBI in the news>Auction Notices > ARC & DRT"). The decision of the Bank shall be final and binding.Place: Mumbai Issued by Date: 27.10.2023 Deputy General Manager (ARC)

proposed e-Auction and modify e-Auction date, any terms & conditions

etc. at any stage without assigning any reasons by uploading the

## **VISTAR AMAR LIMITED**

Reg. Off.: Plot - A4, APMC - MAFCO Yard, Sector 18, Vashi, Navi Mumbai – 400703 Tel: +91 22 27880820 Email: roc.shubhra@gmail.com Website: www.vistaramar.com CIN No. L05000MH1983PLC272707

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter & half year ended 30th Sep, 2023

				you.	• <b>.</b>	(Amou	nt in Lakhs)
		For the	e Quarter en	ded on	Half Yea	r Ended	Previous Accounting
Sr. No.	Particulars	Sep 30, 2023 (Unaudited)	June 30, 2023 (Unaudited)	Sep 30, 2022 (Unaudited)	Sep 30, 2023 (Unaudited)	Sep 30, 2022 (Unaudited)	Year Ended March 31, 2023 (Audited)
1	Total Income from Operations	831.08	2,080.82	702.05	2,911.91	2,549.56	6,418.25
2	Net profit for the period (before tax,	34.12	172.83	23.04	206.95	193.58	423.30
	Exceptional and/or Extraordinary items)						
3	Net profit for the period before tax	34.12	172.83	23.04	206.95	193.58	423.30
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)						
4	Net profit for the period after tax	24.24	128.63	16.15	152.87	144.04	316.51
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)						
5	Total Comprehensive Income for the period	24.24	128.63	16.15	152.87	144.04	316.84
	[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)						
	and Other Comprehensive Income (after tax)]						
6	Equity share Capital	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
7	Reserves excluding revaluation reserves as per	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	balance sheet of previous accounting year						
8	Earnings per share (of Rs 10 / - each)						
	Basic & Diluted	0.76	4.02	0.50	4.78	4.50	9.89

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30 Sep, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations

2015. The full format of the Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com Sd/-Director : Rajeshkumar Panjari DIN: 00261895

Place: Navi Mumbai Date: 25/10/2023

## LARK TRADING AND FINANCE LIMITED

CIN: L34102UP1987PLC009222

Regd. off: C-273 Sector-63, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301 Telephone-011-22159466, Email:larktradingfinance@gmail.com website: www.larktrading.in Extract of the UnauditedStandalone Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2023

(Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015) (Amt. in Lakhs)							
Particulars		Quarter Ende	ed	Half Ye	Year Ended		
	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
Revenue from operations	19.76	17.54	18.00	37.30	35.81	76.24	
Other Income	-	-	-	-	-	0.21	
Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.82	4.50	3.41	3.68	-8.11	14.50	
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.82	4.50	3.41	3.68	-8.11	8.72	
Total Comprehensive Income for the period[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-0.82	4.50	3.41	3.68	-8.11	8.72	
Equity Share Capital	526	526	526	526	526	526	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)						187.39	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations)- 1. Basic 2. Diluted	- 0.02 - 0.02	0.09	0.01 0.01	0.07	-0.15 -0.15	0.17 0.17	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half YearlyFinancial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half Yearly Financial Results is available on the Websites of the Stock Exchange <a href="https://www.msei.in">www.msei.in</a> and on the website of the Company at <a href="https://www.msei.in">www.larktrading.in</a>

For Lark Trading and Finance Limited Sumit Tayal Whole time Dire DIN: 06598044



















Date: 26.10.2023





#### सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि एंबिएंस प्राइवेट लिमिटेड को प्लॉट नंबर: GH-01, सेक्टर-115, नोएडा, उत्तर प्रदेश पर प्रस्तावित समह आवास के लिए पर्यावरण मंजरी ईसी पहचान संख्या EC23B039UP176970. प्रस्ताव संख्या।

SIA/UP/INFRA2/432715/2023 और फाइल नंबर 7970-7869 दिनांक 21/10/2023 अनुसार प्रदान की गई है | उक्त पर्यावरण मंजूरी पत्र की प्रतियां पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

वेबसाइट www.environmentclearance.nic.in पर उपलब्ध हैं

. ललित मोहन मदान

CAPITAL

ऋण खाता संख्या/खाता, ऋणकर्ता(ओं)

न्या खाता संस्था : ARELND LAP0000081207 & ARELND LAP000004025

मैसर्स डी के कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रोपराइटर के माध्यम से, मकान नंबर सी-76, एन.एस.

ी. सहकारी आवास समिति लिमिटेड, प्लॉट नं. 2, सेक्टर पी—6, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध गर, उत्तर प्रदेश — 201308

नं. 2. सेक्टर पी—6. ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश — 201308 3. **श्रीमती पुष्पा**, मकान नं. सी—76, एन.एस.जी. सहकारी आवास समिति लिमिटेड,

लॉट नं. 2, सेक्टर पी—6, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश — 201308

नगर, अतरार प्रदेश — 201308 2. **श्री धर्मेन्द्र कुमार**, मकान नं. सी—76, एन.एस.जी. सहकारी आवास समिति लिमिटेड, प्लॉट प्रदेश — 201308

एवं गारंटर(रों) का नाम तथा पता

करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 27—10—2023

# बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पताः ३२-बी, सेक्टर-६२, नोएडा-२०१३०७

#### Ref: BOI/GZB/ADV/23-24/02 गाजियाबाद शाखा परिसर में रखी अशुल्क संपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस

एतद्दवारा सार्वजनिक सूचना उन अपरिवर्तित संपत्तियों की नीलामी बिक्री के लिए दी गई है जं शाखा परिसर में रखे गए अपशिष्ट / कबाड़ के रूप में रुपये 67,000 / – (रु. सडसट हजार) से कम नहीं हैं। इसकी बिक्री के लिए दिनांक 03.11.2023 समयः सुबह 11 बजे निर्धारित है, र 67,000 / - से अधिक कीमत उद्धत करने वाले किसी भी बोली लगाने वाले के पक्ष में बिक्री की पष्टि की जाएगी। अन्यथा बिक्री की पष्टि उस बोली लगाने वाले के पक्ष में की जाएगी जिसने पहले ही रुपये 67,000 / – की उच्चतम बोली लगाई है।

प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद शाखा

ई-निविदा सूचना संख्या: E-Tender

GSU-TRD-I 6-23-24 दि-25-10-2023

''खली निविदा'

ारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लि

रिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर / गति–शक्ति

विंत्तर रेलवे, वाराणसी द्वारा निम्नलिखित

कार्य हेतु "खुली" ई—निविदा आमंत्रित करते है।

**हम सं 1:— कार्य का नाम:** पूर्वोत्तर रेलवे व

गराणसी मंडल में हरदत्तपुर—बनारस खंड के बीच लेबल—क्रसिंग—8 पर सीमित ऊचाई वाले सबवे

रल.एच.एस.डब्ल्यू) के प्रावधान के लिए 25 केवी

ानुमानित लागत रुपया में : ₹10,00,178.54,

ारोहर राशि रूपया मेंः ₹20,000.00, निविद

।पत्र का मूल्य रुपया में : शून्य, निविदा बं

होने की तिथि एवं समयः 16.11.2023 up to

5:00 Hrs, कार्य पूरा करने की अवधि 06 माह।

बुली ई–निविदा दिनांक 16.11.2023 क 5:00 बजे तक जमा कर सकेंगे। पूर्ण विवरण

नानने हेतु एवं निविदा की प्रस्तुति करने व

लेए कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइन

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

वाराणसी

vww.ireps.gov.in पर देखें। ारिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर ∕ गति–शक्ति

[जाधि ∕ विद्युत—187

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड्ला फाइनेंस लिभिटेः

मांग सचना के अनुसार देयराशि

**रु. 1.05.11.483 /—** (रुपये एक करोड पांच लार

ABFLND LAP0000094925 हेत् बकाया

मुलधन, दिनांक 17.10.23 तक बकाया मुलधन, शुल्कों (प्रोद्भूतकृत विलंब शुल्कों सहित) तथा ब्याज वं

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्तामरि

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेर

संख्य

**ए. 92.31.488 /—** ऋण खाता

ABFLND\_LAP0000081207 ਵੇਰ੍

वेदयुतीकरण कार्य। टेंडर रिफरेंश

-Tender-GSU-TRD-L6-23-24. कार्य

#### सार्वजनिक सूचना

विक्रिकल जसवंत सिंह पिता स्वर्गीय राम सिंह निवासी जे-5/21, भूतल, रजौरी गार्डन, वेस्ट दिल्ली-110027 ने अपने पुत्र दलजीत सिंह, उनकी पत्नी रमनदीप कौर एवं उनके बच्चो संजम कौर एवं रेहात कौर निवासी जे-5/108, भवल रजौरी गार्डन नर्ड दिल्ली-110027 एव उनके बच्चों से सभी तरह के संबंधों एवं सम्प समाप्त कर दिया है, क्योंकि वे मेरे मवक्किल के नियंत्रण के बाहर जा चुके है तथा वे अपर्न सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों से उन सभी को बहिष्कृत कर दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर उनके साथ कोई सौदा करता है, तो वे ऐस अपनी जोखिम, लागत एवं व्यय पर करेंगे। मेरे मवक्किल किसी भी परिस्थिति में उनके किसी ) ो कार्यों, विलेखों तथा वस्तुओं के लिए न तो जिम्मेदार और न ही उत्तरदायी होंगे।

#### **BOOK YOUR COPY**

Call **022 4027 5432** SMS reachbs to 57575 Email us at order@bsmail.in

> Business Standard Insight Out

#### लार्क ट्रेडिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड CIN: L34102UP1987PLC009222

पंजीकृत कार्यालयः सी-273 सेक्टर-63, नाएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 टेलीफोन-011-22159466, ईमेल: larktradingfinance@gmail.com वेबसाइट: www.larktrading.in 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनअंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियम 47(1) (बी))

	समाप्त तिमाही			समाप्त	समाप्त वर्ष	
विवरण	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
परिचालन से राजस्व	19.76	17.54	18.00	37.30	35.81	76.24
अन्य आय	-	-	•	•		0.21
अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (कर से पहले, असाधारण और/या असामान्य मदों पर )	-0.82	4.50	3.41	3.68	-8.11	14.50
कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	-0.82	4.50	3.41	3.68	-8.11	8.72
अविध के लिए कुल व्यापक आय [इस अविध के लिए लाभ/(हानि) शामिल (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	-0.82	4.50	3.41	3.68	-8.11	8.72
इक्विटी शेयर पूंजी	526	526	526	526	526	526
रिज़र्व (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है)						187.39
प्रति शेयर आय (प्रत्येक रु. 10/-) (जारी और बंद किए गए परिचालन के लिए) 1. बेसिक 2. डायल्यूटिड	- 0.02 - 0.02	0.09 0.09	0.01 0.01	0.07 0.07	-0.15 -0.15	0.17 0.17

उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर तिमाही /अर्थवार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही /अर्थवार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूपस्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <u>www.msei.in</u> और कंपनी की वेबसाइट <u>www.larktrading.in</u> पर उपलब्ध है ।

हस्ता।/

दिनांक: 26.10.2023 स्थान: नोएडा DIN : 06598044

#### सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना कर्जदाता (ओं) का नाम गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण अनु. तारीख (सी) (रू.) (डी) कर्ज खाता क्र.HLLADPR00508715 दुकान/युनिट नं.9, 10, 11, 12 तल मंजिल 04.10.2023 रू.3,90,84,089.28 (रूपये स्काईलैंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड तीन करोड नब्बे लाख चौरासी पर और फ्लैट /युनिट नं. 19 और 20 पहली हजार नवासी और अठ्ठाईस पैसे मंजिल पर, ब्लॉक -बी2, डीडीए मार्केट

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

सफदरगंज एनक्लेव, नई दिल्ली -110029

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चुक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनयम की धारा 13(2)के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी ा कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, . सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों. लागतों और पुभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है. इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता '

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है । प्राधिकत अधिकारी स्थान : नर्ड दिल्ली

कृते इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड

मात्र) 17.10.2023 के अनुसार

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 **शाखा कार्यालय :** विजया भवन, द्वितीय तल, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली — 110001 धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप निम्न वर्णित ऋणकर्ता ने अनुसूची के अंतर्गत वर्णित संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप निम्न वर्णित व्यक्ति ऋणानुबंध के लिए ऋणकर्ता ⁄ सह—ऋणकर्त एवं गारंटर के रूप में खड़े हुए हैं। आपके द्वारा की गई चूकों के परिणामस्वरूप, निम्न वर्णित आपके ऋण खाता को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ व्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संक्षेप में सरफॉएसि अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत अनार्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हम, आदित्य बिड़ल फाइनेंस लिमिटेड ने आपके द्वारा प्रस्तुत पते पर, संशोधितानुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त सूचनाओं की विषयवस्तु यही है कि आप, आपको स्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक कर चुके थे। अतः, यह वर्तमान प्रकाशन जो है वह सरफॉएसि अधिनियम की धारा . 13(2) के प्रावधान के ऊप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) निमयावली 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार आप तक सूचना प्रसारण हेतु प्रकाशित किया गया है।

प्रवर्तित की

अनारात जानेवाली प्रतिभूति

के विवरण

एस.जी. सहकारी आवा

समिति लिमिटेड प्लॉ

नोएडा. गौतग

आपको एतदद्वारा **आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड** को उक्त मांग सचना की तिथि से 60 दिवसों की अवधि के अंदर ब्याज एवं लागत के साथ उपर्यक्त राशि का भगतान करने व

निर्देश दिया जाता है। भुगतान करने में विफल रहने पर **आदित्य बिङ्ला फाइनेंस लिमिटेड** समस्त अथवा किसी एक अथवा एकाधिक प्रतिमृत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम व

गवधानों के अंतर्गत अनेवार्य कार्रवाई करेगी, जिस कार्रवाई में ऋणकर्ताओं, बेधककर्ताओं और गारंटरों की प्रतिमृत परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना सम्मिलित होगा। उक्त अधिनयम अंतर्गत **आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड** के पास उपलब्ध शक्ति में निम्नलिखित शक्तियां सम्मिलित हैं— (1) प्रतिमूत परिसंपत्तियों को छुड़वाने के लिए विक्रय के समनुदेशन, पट्टा वे

मध्यम से हस्तांतरण के अधिकारों सहित ऋणकर्ताओं / गारंटरों की प्रतिमृत परिसंपत्तियों पर अधिग्रहण करने की शक्ति. (2) पटटा. समनदेशन के माध्यम से अथवा विक्रय द्वारा हस्तांतर करने के अधिकारों सहित प्रतिमृत परिसंपत्तियों का प्रबंधन हाथ में लेना और प्रतिमृत परिसंपत्तियों को प्राप्त करना तथा **आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा किया जानेवाला प्रतिमृत परिसंपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण, समस्त अधिकारों एवं हस्तांतरित प्रतिमूत परिसंपत्तियों के संबंध में निहित होगा क्योंकि यह हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार, आपको एतदृद्वारा उपरोक्त संदर्भित तथा **आदित्य बिङ्ला फाइनेंस लिमिटेड** के पास दृष्टिबंधककृत/बंधककृत किसी भी प्रतिभूत ारिसंपत्ति को, **आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड** की पूर्व सहमति के बिना, विक्रय या पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त) हस्तांतरि

मांग सूचना की तिथि/

17.10.2023

एनपीए

13.10.2023

≝IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. Home Loans पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट-15, 6वाँ तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002 **कार्यालयः** प्लॉट नं. 277 ईस्ट, टैगोर नगर, निकट डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर—302021

#### अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना

जबकि, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने विचीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग कर यहाँ यथाउल्लिखत खाते के लिए तारीख को मांग सूचना जारी की जिससे कर्जदार और संपतित मालिक /जमानती से भी सूचना में उत्लिखित राष्टि को उत्त सूचना की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया। जबकि संपत्ति मालिक और अन्य के द्वारा राशि अदा न कर पाने पर एतद्वारा उल्लिखित कर्जदारों और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अबोहस्ताकारी ने उत्तर नियमावती के नियम 8 व 9 के साथ पठित उत्तर अधिनयम की बारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति औं का प्रत्येक खाते के लिए उल्लिखित तारीखों को मीतिक कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से कर्जदार और सर्व जनों को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति/ओं के साथ कोई भी केन केन किया किया किया का कार्य कार्य के किया के लिए के लिए के लिए के कार्य के क्या के क्या के क्या के

- 1	क	ाइ मा लन—दन नाच <b>जल्लाखत साश आर इस</b> ा	पर ब्याज, लागता आदि के लिए के लिए इंडिया शल्टर फाइनस व	<b>हापारशन ाल. क प्रभार क अधान हागा।</b>		
	क्र. सं.		प्रभारित ∕ बंधक संपत्ति (संपत्ति के समस्त भाग व खंड) का विवरण	मांग सूचना की तारीख, मांग सूचना की तारीख को देय राशि	सांकेतिक की तारी	
	1 4 3 7	श्रीमती मुन्नी कंबर, श्री पदम सिंह पंवार और श्री सुरेन्दर सिंह पंवार, निवासी: प्लॉट नं. 112. श्री गणेष नगर—ई, बॉयधावाला बेनार रोड जयपुर— 302012, राजस्थान ऋण खाता सं. HL30LILONS000005030417/ PP-10085072	जरापर राजस्थान एरिया माप 100 वर्ग गज के सभी भाग व खंड।	मांग सूचना: 19.05.2023 ७. 986893.39/- (रुपये नौ लाख छियासी सौ तिपासी और उनतालीस पैसा मात्रो दि. को देय और दिनांक 11.05.2023 से गुगतान तक लागू ब्याज और अन्य सभी प्रमार स	10.05.2023 की तारीख	20.10.2023
	2 a	भीमती श्वेता सिंह और श्री भानू प्रताप सिंह, नेवासी: पी नं, एफ-46ए, सिंहा हाऊस विया मार्ग, नोपार्क, जयपुर-302016, राजस्थान म्रण खाता सं, HL30CHLONS000005030476/ PP-10052466	सीमाएँ:— पूर्वः प्लॉट नं. एफ-34, पश्चिमः रोड 40 फुट चौड़ा, उत्तरः प्लॉट नं. एफ-48, दक्षिणः प्लॉट नं. एफ-45	<ul> <li>र. 4856741.43/- (रुपये अङ्तालीस ल हजार सात सौ इकतालीस और तैंतालीस</li> <li>री. 10.06.2022 को देय और दिनांक 11.0 पुगतान की तारीख तक लागू ब्याज और प्रमार, लागत और ब्ययों सहित।</li> </ul>	पैसा मात्र) 06.2022 से	26.10.2023
1		किसी पूछताछ के लिए	कृपया श्री विनय राणा (+91 7988605030) और श्री देवेन्द्र सिंह (	-91 8560017658) को संपर्क करें।		
ſ	₹9	गनः राजस्थान, दिनांकः 27.10.2023	(प्राधिकृत अधि	कारी) हिते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉप्	र्गेरेशन लि	मेटेड

LIC HFL

#### LIC HOUSING FINANCE LTD. कार्यालय : लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड,

<u>नई दिल्ली — 110002</u> परिशिष्ट IV (नियम 8(1) सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल संपंत्ति के लिए)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्धितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.** के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे वर्णित अनुसार मौजूदा सूचना में वर्णित + उसपर अर्जित व्यय व अन्य शुल्कों की राशि का भुगतान करने के लिए यहां नीचे वर्णित अनुसार् ऋणी को बुलाने के लिए वर्णित अनुसार मांग सूचना जारी की थी ।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रत्येक खाते के लिए वर्णित तिथियों पर **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतदद्वारा संपत्ति के साथ कन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि स 60 दिनों के भीतर नीचे वर्णित अनुसार राशि + उसपर अर्जित ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.** के प्रभार का विषय होगा।

	क्र. सं.	आवेदक(ओं) / सह—आवेदक(ओं) के नाम	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा सूचना तिथि	माग सूचना अनुसार देय राशि	कब्जे का प्रकार
-[		आवेदक(ओं) : श्री रजत आनंद	पहली मंजिल छत	07.08.2023	21.10.2023	₹. 24,69,760/-	सांकेतिक
-		सह–आवेदक(ओं): मीनाक्षी	अधिकारों के साथ संपत्ति	उसपर ब्य	जि व अन्य शुर	न्कों सहित	कब्जा
-		आनंद	बियरिंग नं. 1118—ए व पुर	- ाना नं. 483 /	1, खसरा नं. 3	21, शालीमार माज	ारा, मादीपुर,
-		ऋण खाता : 312400000028 व	रानी बघम शकूर बस्ती के	रूप में ज्ञात के	ॉलोनी, दिल्ली	I—110034 के सहि	त संपत्ति के
-		312400000428	सभी भाग व पार्सेल, क्षेत्र मा	ान 64 वर्ग या <b>र</b>	ई <b>सीमा :</b> उत्त	र में : दूसरों की संप	गत्ति, दक्षिण
- 1		में : दसरों की संपत्ति पर्व में : गली :	प9िचम · गली			-	

जन्त वर्णित अनुसार शेष बकाया राशि मांग सूचना की तिथि से अर्जित भावी ब्याज व अन्य शुल्कों सहित है | दिनांक : 26.10.2023 स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि

#### SHRIRMM HOUSING FINANCE

## श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मख्य कार्यालय :लेवल 3. वोखार्ट टॉवर्स. ईस्ट विंग. सी-2 ब्लॉक. बांद्रा कर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400 051, दूरभाष : 022 4241 0400, 022 4060 3100 वेबसाइट : http://www.shriramhousing.in पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अंगप्पा नैकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 245 एवं 246, दूसरी मंजिल, ओमकारम टॉवर, हनुमान नगर-डी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021

#### [नियम ८(६) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना परिशिष्ट-IV-A

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत अचल सम्पत्तियों की विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/रों एवं जमानती/यों को सचना दी जाती है कि श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया है, की बिक्री तालिका में वर्णित के अनुसार कर्जदारों एवं जमानतियों से द श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बकायों की वसूली के लिए ''**जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा** ''**जो कुछ भी है वहीं है**'' आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 29.11.2023 **को** 11.00 **बजे पूर्वा. से** 1.00 **बजे अप.** के बीच की जायेगी। कर्जदारों तथा जमानतियों के विवरण, बकाया राशि, अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण तथा उस पर ज्ञात ऋणभार, आरक्षित मुल्य एवं जमा धरोहर राशि तथा वृद्धि

भा निम्नवत दा गया हः						
कर्जदारों ⁄सहकर्जदारों ⁄जमानतियों ⁄ बंधककर्ताओं के नाम	13(2) माँग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) तथा संविदा वृद्धि	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) का विवरण	नीलामी की तिथि एवं समय	सम्पर्क व्यक्ति तथा निरीक्षण की तिथि
<ol> <li>श्री मोहम्मद इरफान पुत्र श्री रमजान पता : सी-24, संगम विहार, लालवास रामगढ़ रोड, जयपुर, राजस्थान-302027</li> <li>श्रीमती साजिया पत्नी श्री इरफान</li> </ol>	मांग सूचना तिथि 14.03.2023 SHLHJIPR000 1884	प्लॉट नं. 50, स्कीम-लक्ष्मी नगर, फ्लैट नं. एस-2, दूसरी मंजिल 'पवनधाम-5' कलवार रोड, झोटवाड़ा, जयपुर,	रु. 12,25,162/- (रुपये बारह लाख पच्चीस हजार एक सौ बासट मात्र) संविदा वृद्धि रु. 10,000/- तथा इसके गुणकों में.	ईएमडी नीचे वर्णित खाता विवरण में आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा जमा की जानी है : बैंक का नाम : एक्सिस बैंक	29 नवम्बर, 2023 समय 11:00 बजे	कस्टमर केयर नं. 022-40081572 वीरेन्द्र सिंह राठौर +91- 9166346933
पता : सी-24, संगम विहार, लालवास रामगढ़ रोड, जयपुर, राजस्थान-302027 ऋण खाता संख्या SHLHJIPR0001884 कब्जा करने की तिथि एवं कब्जे का प्रकार 26.09.2023 भौतिक कब्जा	रु.  13,41,401/- (रुपये तेरह लाख इकतालीस हजार चार सौ एक मात्र) 12.03.2023 तक तथा यहाँ उल्लिखित ब्याज	राजस्थान-302012 माप 662.25 वर्ग फीट सीमाएं : उत्तर : एलॉट नं. 51, दक्षिण : रोड, पूर्व : रोड,	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.) रु. 1,22,517/- (रुपये एक लाख बाईस हजार पांच सौ सत्रह मात्र) ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 28.11.2023 समय	लिमिटेड शाखा : बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई बैंक खाता सं. : चालूखाता सं. 911020045677633 आईएफएससी कोड : UTIB0000230	पूर्वा. से 1.00 बजे अप.	हितेश सोनी +91- 9828230007 सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 21.11.2023 समय :11.00
ज्ञात ऋणभार अज्ञात	व्यय, लागतें आदि	पश्चिम : प्लॉट नं. 49	10.00 बजे पूर्वा. से 05.00 बजे अप.			बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप.

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वेबसाइट http://shriramhousing.in/e-auction-Residential देखें।

स्थान : जयपुर

तिथि : 27.10.2023

ह./-अधिकृत प्राधिकारी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Satin Housing Finance Ltd. HE ANSWER IS HOME

कार्यालयः प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज-3 गुरूग्राम हरियाणा-122016

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)] नबिक, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन (अधिनियम, 200: 2002 का 54)) के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से वास्तविक भगतान की तारीख तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के आह्यान करते हुए संबंधित कर्जदारों के मांग नीटिस जारी किए हैं।

उक्त कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता दारा राशि चकाने में विफल रहने पर कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्त और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम ह के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णि संपत्ति का इस तिथि को सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

वेशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ लेनदेन संबंधित तिथियों से पूर्ण भगतान तक अतिरिक्त ब्याज, लागत और प्रभार सहित इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभत संपत्तियों को विमोचि . रुरने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान क अरेर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम एवं पता तथा ऋण खाता सं.	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि रु. में
1.	सुरेंद्र सिंह पुत्र कुलदीप सिंह (कर्जदार)     ज्योति ज्योति पत्नी रमेश कुमार (सह-कर्जदार)     कुलदीप पुत्र महाराम (सह-कर्जदार) लैन नं. LARE10820-00001985	मकान 125, वाका मौजा नयागांव उपतहसील- नाहड़, जिला-रेवाड़ी, हरियाणा- 123303, सीमा: पूर्व - श्री क्षय कुमार का प्लॉट, पश्चिम- रास्ता 18 फीट, उत्तर- श्री राजेंद्र का प्लॉट, दक्षिण- प्लॉट श्री राजेंद्र	18.08.2023 सांकेतिक कब्जे की तिथि 03.11.2023	रु. 7,11,714/- (रुपये सात लाख ग्यारह हजार सात सौ चौदह मात्र) तिथि 10 अगस्त, 2023 तक
2.	योगेश योगेश पुत्र प्रेम सिंह (कर्जदार)     संध्या संख्या पत्नी योगेश     सह-कर्जदार)     सतीष संतोष पत्नी प्रेम     सिंह-कर्जदार)     सतीष संतोष पत्नी प्रेम     सिंह-कर्जदार)     सिंह-कर्जदार)	प्लॉट/घर यूआईडी नंबर 4462, संपत्ति आईडी नंबर 61580WA.J0000/ RO 126A लाल डोरा आवादी, गांव अजायव तहसील महम जिला रोहतक, हरियाणा। सीमाएं : पूर्व-मालिक का मकान/74 फीट, पश्चिम-सडुक 18 फीट चीड़1/4 फीट, उत्तर- विजेदर का घर/3 दक्षिण- गली 14 फीट चौड़ा/30 फीट -		रु. 4,73,135 /- (रुपये चार लाख तिहतर हजार एक सौ पैतीस मात्र) तिथ्वि 10 अगस्त, 2023 तक
3.	विकास सचान पुत्र ज्ञान प्रकाश सचान     कंचन पत्नी विकास सचान तैन नं     LASHD0223-00007173	आबादी मोहल्ला, कृष्णानगर, पट्टी- औरगाबाद, वार्ड नंबर-18, करवा- खेकड़ा अदार, नगर, नगर पालिका परिषद, खेकड़ा, तहसील-खेकड़ा, जिला-बागपत, यूपी-2501011 सीमाएं: पूर्व (13 फीट)- स्ट्रीट 15 फीट। चीड़ा, पश्चिम (13 फीट)- हर्देक सर, उत्तर ( का घर, दक्षिण (52 फीट)- पालो का घ		क. 7,78,142/- (रुपये सात लाख अठारह हजार एक सौ बयालीस मात्र) तिथि 10 अगस्त, 2023 तक



hindi.business-standard.com

f businessstandardhindi